

उत्तराखण्ड शासन

खेलकूद अनुभाग

संख्या- /VI/2018-34(6)/2018

देहरादून : दिनांक 27 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित बी०सी०सी०आई० प्रशासक समिति की दिनांक 18 जून, 2018 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त के प्रस्तर-2 (b) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड सरकार की ओर से श्री बलराज पासी, राम भवन, वार्ड नं०-03, अलापुर, बाजपुर जिला-ऊधमसिंह नगर को Uttarakhand Cricket Consensus Committee ("Consensus Committee") सदस्य के रूप में कार्यवृत्त के प्रस्तर-3 की व्यवस्थानुसार एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा उत्तराखण्ड क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये जाने तक जो भी पहले हो, एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- 473 /VI/2018-34(6)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा० खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 3- अध्यक्ष, बी०सी०सी०आई० प्रशासक समिति, चतुर्थ तल, क्रिकेट सेन्टर, वानखेड़े स्टेडियम, 'डी' रोड, चर्चगेट, मुम्बई को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- श्री बलराज पासी, राम भवन, वार्ड नं०-03, अलापुर, बाजपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव।